



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 18—अगस्त 24, 2012 (श्रावण 27, 1934)

No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 18—AUGUST 24, 2012 (SRAVANA 27, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2012

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए. 38014/2/2012-पीएमई--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने के फलस्वरूप इस कार्यालय में कार्यरत आर्थिक मामले विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव श्री अशोक कुमार प्रसाद दिनांक 31 जुलाई, 2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

सं. आरएस./20/1/2012/71-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री नरेश चन्द्र जोशी, सचिव 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. आरएस./36/1/2012/69-कार्मिक--राज्य सभा के सभापति ने राज्य सभा के महासचिव के रूप में डॉ. विवेक कुमार अग्निहोत्री के कार्यकाल को वर्तमान निबंधनों और शर्तों पर 30 सितम्बर, 2012 तक की अवधि या आगामी आदेशों तक बढ़ा दिया है।

डी. बी. सिंह, अपर सचिव

सं. आरएस./20/1/2012/72-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राधे श्याम शर्मा, संयुक्त निदेशक (वृत्तलेखन) 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./20/1/2012/73-कार्मिक--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, श्री राम कुमार शर्मा, उप-निदेशक (संपादन और अनुवाद) 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. ए-19011/05/2012-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, 03 जुलाई, 2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए श्री एल. सी. गोयल, भा.प्र.से. (केरल : 79) को मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. गाबा, निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. फा.3(9)/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति श्री शहजाद सरफराज़ पूनावाला को दिनांक 21.05.2012 (पूर्वाह्न) से संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल) के अपर निजी सचिव के रूप में वेतन बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में नियुक्त करती हैं।

2. यह नियुक्ति राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ल) की इच्छा और उनके कार्यकाल के सहायसानी या जब तक वे राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद नहीं कर देते तब तक या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, है।

रामेश्वर प्रसाद, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. ए. 22016/2/2012--अन्तरिक्ष विभाग में सुश्री कल्याणी सेतुरामन, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1994) को निदेशक (बजट) के पद पर 12 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एस.एन. रामकृष्ण, उप सचिव

बेंगलूर-560231, दिनांक 23 जुलाई 2012

शुद्धि-पत्र

सं. 3/1(1)/2012-I--इस विभाग के दिनांक 30.11.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, क्रम सं. 15 में दिया गया नाम टी. इलिलकासी के बदले टी इलिलरासी पढ़ा जाए।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	बुसनबोयिना मयूरी	08.08.2011
2.	कट्टा ईश्वर दिलीप कुमार	11.08.2011
3.	वासु दुबे	11.08.2011
4.	दंडा दीपक रेड्डी	11.08.2011
5.	सुप्रतिम नस्कर	11.08.2011
6.	स्नेहा किशोर पटकोटवार	11.08.2011
7.	विश्व तेजा गन्ने	11.08.2011
8.	स्मिजित जी.बी.	28.11.2011
9.	प्रभु वी. आर.	14.11.2011
10.	शिवशंकर हरीश कुमार	19.10.2011
11.	मुत्तु जय बंसल	29.09.2011
12.	मिथुन कुमार	21.09.2011
13.	राहुल झंवार	21.09.2011
14.	पी. परमेश्वर रेड्डी	21.09.2011
15.	गौतम नायक	07.09.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों और दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई	पदोन्नति का दिनांक
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	के.एन. रघुराम	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	21.12.2011
2.	आर. पद्मकुमार	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	12.12.2011
3.	पी. श्रीनाथन	वरिष्ठ प्रधान, लेखा/आ.वि. सलाहकार	29.12.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/

सं. 3/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्रीमती एलिज़बेथ जोस के., वैज्ञानिक/

इंजीनियर-एस.ई. ने स्वैच्छिक रूप में निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 07.12.2011 के पूर्वाह्न से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में श्री मनदीप सिंह, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 04.11.2011 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गए पद से दिनांक 31.01.2012 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:--

क्र. सं.	नाम	पद
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	डॉ पी.पी. सिन्हा	उत्कृष्ट वैज्ञानिक
2.	डॉ. देश दीपक	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
3.	के. पलनिवेलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.
4.	के.एस. गोपालकृष्णन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
5.	के. श्रीनिवासन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
6.	ई. राजन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 3/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	सी. श्रीकुमारन नायर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	31.12.2011
2.	वनजा बी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.11.2011
3.	डॉ. थामस कुरियन	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.10.2011
4.	एस. गोपकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	31.10.2011

1	2	3	4
5.	के. श्रीकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी.	30.09.2011
6.	टी.के. सुरेश बाबु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	30.09.2011
7.	लिविंग्स्टन नॉक्स टी	वरिष्ठ क्रय व भण्डार अधिकारी	30.09.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिकों/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	देबब्रत तिवारी	27.03.2012
2.	सत्य नारायणन जे.	28.03.2012
3.	ममता साह	24.04.2012
4.	डी. तमिलरासी	13.04.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों व अधिकारियों ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दी गई तारीख के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है:--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	के.के. चंद्रमगदन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	29.02.2012
2.	के. हेरन्दाथ	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.	30.04.2012
3.	एम. शिवरामन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.	30.04.2012
4.	एम. वेंकट राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच.	30.04.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री के. लक्ष्मय्या, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.को स्वैच्छिक रूप में सेवा निवृत्ति स्वीकार होने के परिणामस्वरूप दिनांक 01.03.2012 के पूर्वाह्न से अपना कार्यभार छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--डॉ. टी.के. अलेक्स ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निदेशक के पद का कार्यभार दिनांक 30.06.2012 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	त्याग पत्र की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	अभिनव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	02.03.2012
2.	शिव आशीष सिंह	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	31.05.2012
3.	अपर्णा मोहन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	22.06.2012

एन. पट्टाभि रामन, उप सचिव

सं. 5/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से तकनीकी त्यागपत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	सौम्यकेतु मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	27.02.2012
2.	विशाल श्रीवास्तव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	30.04.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	श्रीजित टी.वी.	08.08.2011
2.	राजर्षि रॉय चौधरी	21.09.2011

1	2	3
3.	दिनेश आर.के.	21.09.2011
4.	हरिओम कुमार	23.12.2011
5.	पल्लवी मल्लार	26.12.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, महेन्द्रगिरी में डॉ. डोणा स्टीफन को चिकित्सा अधिकारी-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 20.01.2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, महेन्द्रगिरी में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांकों के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आई. अरुण	07.09.2011
2.	जे. प्रवीण कुमार	14.12.2011
3.	कार्तिकेय वेंकटेश आर.	12.01.2012
4.	एम.आर. वोमचन्द्र	19.01.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पद का दिनांक 29.02.2012 के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	बाबु के.	कनिष्ठ अभियंता
2.	पी.पी. कैलासनाथन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
3.	सी. अमरशेखरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच
4.	शशिधरन नायर के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--श्री डी. आर. सेल्वनायगम ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, महेन्द्रगिरी में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एच के पद का कार्यभार दिनांक 30.04.2012 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--श्री डी. राजा मनोहर ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, महेन्द्रगिरी में वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी. के पद का कार्यभार दिनांक 30.09.2011 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2012

सं. 7/1(1)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, महेन्द्रगिरी में श्री हरि शंकर मिश्रा को क्रय व भण्डार अधिकारी के पद पर अस्थायी रूप में दिनांक 01.11.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों का सेवा से त्याग-पत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	त्याग-पत्र की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	आलोक केशरवानी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	22.02.2012
2.	आलोक कुमार बाजपाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	29.02.2012
3.	संदीप चौहान	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	01.03.2012
4.	नवीन चन्द्र भट्ट	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	07.03.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 7/1(2)/2012-I--अन्तरिक्ष विभाग के द्रव नोदन प्रणाली केन्द्र, वलियमला, तिरुवनन्तपुरम में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.डी.

का सेवा से त्याग-पत्र प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से स्वीकार करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	त्याग-पत्र की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	निलोय घोष	30.12.2011
2.	सोमेनाथ डे	24.02.2012

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. ए-38013/1/2012-प्रशा. I (वि.वि.)-- विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में निजी सचिव (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा) के पद पर कार्यरत श्रीमती रीमा मल्होत्रा, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर दिनांक 31 जुलाई, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रही हैं।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-12025/06/2010-प्रशा. I (वि.का.)--राष्ट्रपति, श्रीमती आरती चोपड़ा, अधीक्षक (विधि), विधि कार्य विभाग को संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर दिनांक 16 जुलाई, 2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित सहायक विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा के विधि सलाहकार सेवा संवर्ग का ग्रेड-IV) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती आरती चोपड़ा की सहायक विधि सलाहकार के पद पर की गई यह नियुक्ति अस्थायी है और माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली में लंबित ओ.ए. सं. 1741/2012 और 1723/2012 के अंतिम निर्णय के अधधीन है।

निर्मल सिंह, निदेशक

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 7 जून 2012

सं. के-11019/3/2012-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायविद् श्री महेश मित्तल कुमार

की जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप उनके द्वारा कार्यालय का पदभार छोड़ने की तारीख से, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायविद् श्री जसबीर सिंह को, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-13021/2/2012-यू.एस. II--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायविद् श्री महेश मित्तल कुमार को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 14 जून 2012

सं. के-13014/2/2012-यू.एस. I--न्यायविद् श्री गिरीश श्रीकृष्ण गोडबोले ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) के परन्तुक (क) के अनुसरण में दिनांक 14 मई, 2012 से बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के पद से त्याग-पत्र दे दिया है।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-11017/06/2012-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श के उपरान्त, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री पिनाकी चन्द्र घोष को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सहर्ष स्थानान्तरित करते हैं और उन्हें दिनांक 28 जून, 2012 को या उससे पहले आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना कार्यभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

सं. के-11019/3/2012-यू.एस. I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायविद् श्री पिनाकी चन्द्र घोष को दिनांक 14 जून, 2012 की अधिसूचना सं. के-11017/06/2012-यू.एस. II के तहत आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने के परिणामस्वरूप, उस तारीख, जब से वह उस न्यायालय का कार्यभार ग्रहण करेंगे, से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 26 जून 2012

सं. के-13029/07/2010-यू.एस. II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधीश, न्यायविद् कुमारी निर्मलजीत कौर को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

दिनांक 27 जून 2012

सं. के-13013/01/2011-यू.एस. I (पार्ट)--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री छगारी प्रवीन कुमार और (ii) श्री ममीदनुना सत्य रत्ना श्री रामचन्द्र राव को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

स्नेहलता श्रीवास्तव, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 अगस्त 2012

सं. I-18011/07/2011-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पाण्डे सन्तोष, भा.पु.से. (पश्चिम बंगाल : 2006) को दिनांक 18.12.2008 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करती हैं।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 23012/08/2012-अ.भा.से. (III)--वर्ष 2007 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त और पंजाब संवर्ग में रखी गई सुश्री रूपांजलि को अपना नाम बदलकर सुश्री रूपांजलि से श्रीमती रूपांजलि कार्तिक करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। तदनुसार, वह सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए श्रीमती रूपांजलि कार्तिक के रूप में जानी जाएंगी।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

दिनांक 26 जुलाई 2012

सं. 14012/22/2012-अ.भा.से. (III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पंजाब राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
	सर्वश्री/श्रीमती		
1.	अमित कुमार	2008	01.09.2010
2.	जोराम बेदा	2008	01.09.2010
3.	रूपांजली	2008	01.09.2010
4.	सुप्रीत सिंह गुलाटी	2008	01.09.2010

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2012

सं. 13017/03/2012-अ.भा.से. (I)---भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं बिहार सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, डॉ. आशिमा जैन, भा.प्र.से. (बिहार : 08) की बिहार संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग (दिल्ली सेगमेंट) में अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करती हैं।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. 15011/02/2012-प्रशासन-I--श्री रमेश सी. मिश्रा, भारतीय प्रशासनिक सेवा (ओ. आर. : 76), सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप दिनांक 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

तृप्ति पी. घोष, निदेशक

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. 11 (फा. सं. ए-38014/2/2012-प्रशा.-1क)--राजस्व विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तैनात, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी, श्री गीता भूषण शर्मा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने

पर दिनांक 31 जुलाई, 2012 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 12/2012 (फा. सं. ए-32014/02/2011-प्रशा.-1क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की नियमित आशुलिपि ग्रेड 'ग' श्रीमती अलार्मेल मंगई को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.3.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/27/2010-सीएस. II (ए) के वरिष्ठता कोटे के लिए वर्ष 2009 की चयन सूची में उनका नाम शामिल करने के आधार पर 1 सितम्बर, 2011 से राजस्व विभाग में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. ए-19011/10/2011-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, श्री पुनीत अग्रवाल, भा.प्र.से. (एमटी : 98) उप सचिव को 2 जुलाई, 2012 के पूर्वार्हण से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 19.10.2013 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में वैयक्तिक उपाय के तौर पर इसी विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

*अशोक कुमार, अवर सचिव

सं. ए-19011/02/2010-प्रशा. 2--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में कार्यरत श्री ऋत्विक् रंजनम पांडेय, भा.प्र.से. (कर्नाटक : 98) उप सचिव को 2 जुलाई, 2012 के पूर्वार्हण से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 23.08.2012 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, वैयक्तिक उपाय के तौर पर इसी विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जुलाई 2012

सं. 9/4/2012-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (एसीसी) के दिनांक 26 जून, 2012 के कार्यालय ज्ञा.सं. 18/17/2012-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, सुश्री संगीता चंद्रकांत चौरे (आई ए और एस : 1987) को 23 जुलाई, 2012 की पूर्वार्हण से विनिवेश विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं, जो

पे बैंड रु. 37,400--67,000/- + 10,000/- रु. (पीबी-4), केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर केन्द्रीय स्टाफ स्कीम के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि हेतु यानि 22 जुलाई, 2017 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले घटित होता है, तक है।

डी. चट्टोपाध्याय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. पीएफजी (1028)/2012-प्रशा.-I--सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 03.04.2012 के आदेश संख्या 12015/1/2012-आई.एस.एस. के अनुसरण में, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के अधिकारी, श्री राम स्वरूप सिंह को पीबी-3 में 15,600--39,100/- + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) में दिनांक 12.07.2012 के (पूर्वाह) से सहायक निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

[वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग)]

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. ए-38013/1/2012-संवर्ग--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर पूर्ति प्रभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी अपने नामों के सामने दी गई तारीख से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे :--

क्र. सं.	सी.एस. एल. सं.	नाम	जन्मतिथि	अधिवर्षिता की तारीख
		सर्वश्री		
1.	7747	आर. सी. अत्री	28.07.1952	31.07.2012 (अपराह)
2.	--	आर. सी. स्याल	11.07.1952	31.07.2012 (अपराह)

संजय शंकर, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2012

सं. ए-32013/1/2012/मा.सं.वि.-1--राष्ट्रपति, डॉ. एल. बी. सिंघल भ. व्या सेवा, को अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद पर 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान और 10,000/- रु. के ग्रेड पे में विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 29 जून, 2012 अपराह से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. ए. रेड्डी, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ए-12022/02/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के चयन ग्रेड (उप सचिव) के नियमित अधिकारी श्री सुरेन्द्र के. आहलुवालिया को वर्ष 2012 के लिए सीएसएस के वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री सुरेन्द्र के. आहलुवालिया ने 05 जुलाई, 2012 पूर्वाह से औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग में उप सचिव के पद का कार्यभार त्याग दिया है तथा 05 जुलाई, 2012 पूर्वाह से निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए-19012/1323/11-स्था.-I--औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में श्री अनिल कुमार, निजी सचिव अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर दिनांक 31 जुलाई, 2012 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2012

सं. 10/2012 (फा.सं. ए-12022/01/2012-स्था.)--राष्ट्रपति, श्रीमती गीता नारायण, के.स.से., को 09 जुलाई, 2012 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक पे बैंड-4 (37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु.) में वस्त्र मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुमिंदर कौर, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. ए-47011/01/2012-स्था.--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 30.05.2012 के कार्यालय आदेश सं. 12015/01/2012-आईएसएस के अनुसरण में, श्री के. एस. सोनी, सांख्यिकीय अन्वेषण ग्रेड-I को 10.07.2012 के पूर्वाह से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु. + 5,400/- रु.) ग्रेड वेतन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक नियुक्त करती हैं, इन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के ई. एंड एस. प्रभाग में तैनात किया जाता है।

2. श्री सोनी को सहायक निदेशक के ग्रेड में की गई नियुक्ति सर्वथा तदर्थ आधार पर है और उनको ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने

या सहायक निदेशक के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. 12/04/2012-एसओ--राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय में सलाहकार के रूप में सचिव के रैंक एवं वेतन में श्री आलोक परती को 01.06.2012 से तीन महीने की अवधि के लिए संविदा आधार पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई 2012

सं. पी-1240/2009-स्था.--अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेने पर उपभोक्ता मामले विभाग में अवर सचिव श्री अनुराग भल्ला, 31 जुलाई, 2012 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए-12011/02/2010-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 जुलाई, 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2011-सीएस-I (डी) के अनुसरण में व्यक्तिगत आधार पर अवर सचिव के पद का उन्नयन उप सचिव के पद पर करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I के अवर सचिव श्री अनुराग भल्ला को दिनांक 31 जुलाई, 2012 से या अगले आदेशों तक, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड (पीबी-3) + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में पूर्णतः तदर्थ आधार पर उप सचिव (चयन ग्रेड) सीएसएस के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति, श्री अनुराग भल्ला को ग्रेड में अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सेलेक्शन ग्रेड में वरिष्ठता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

3. यह तदर्थ नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं और उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति याचिका (सी) और इससे संबंधित मामलों में किसी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अंतिम परिणाम के अध्वधीन होगी।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

सं. पी-1240/2009-स्था.--इस विभाग की दिनांक 30.07.2012 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में अधिवर्षिता आयु प्राप्त कर लेने पर उपभोक्ता मामले विभाग में उप सचिव श्री अनुराग भल्ला, 31 जुलाई, 2012 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

एम. ए. चौधुरी, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. 17013/15/2010-आईएफएस.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग ने तमिलनाडु राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए दिनांक 27.12.2011 को हुई चयन समिति की बैठक में वर्ष 2010 के लिए तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा के तमिलनाडु संवर्ग में उपलब्ध प्रोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए तमिलनाडु राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नाम शामिल हैं:--

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	पी. जयबालन	05.07.1956
2.	एस. ए. राजू	31.12.1956

एस. एस. बधावन, निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 27 जुलाई 2012

सं. ए-12025/141/2010-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. लेखा रानी दास को दिनांक 26.04.2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं। डॉ. लेखा रानी दास को केन्द्रीय सरकार योजना, गुवाहाटी के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. लेखा रानी दास नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगी।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

सं. ए-12025/285/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. रामअवतार मालव को दिनांक 12.06.2009 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करती हैं।

डॉ. रामअवतार मालव को आरएचटीसी नजफगढ़ के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। डॉ. रामअवतार मालव नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 30 जुलाई 2012

सं. ए.-12025/12/2011-सी.एच.एस.-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. आशीष कुमार अर्सिया को दिनांक 07 मार्च, 2011 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में सर्जरी की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. ए.-31013/01/2012-सी.एच.एस.-VI--राष्ट्रपति, सामान्य केन्द्रीय सेवा के सेवा संवर्ग में निम्नलिखित डेन्टल सर्जन को प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से मूल रूप से नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	नाम	तैनाती का वर्तमान स्थान	नियुक्ति की तारीख	संपुष्टि की तारीख
1.	डॉ. श्री हरि राव बेल्लम	सी.जी.एच.एस., हैदराबाद	17.07.2008	17.07.2009
2.	डॉ. (सुश्री) अंकिता चन्द्रा	सी.जी.एच.एस., (एन जेड) पूसा रोड़ पाली-क्लीनिक, नई दिल्ली	07.07.2008	07.07.2009
3.	डॉ. गुरसिमरजीत सिंह चटवाल	डॉ. आर एम एल अस्पताल, नई दिल्ली	25.01.2010	25.01.2011
4.	डॉ. शिवांगी मलेतिया	सी जी एच एस विंग, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	25.01.2010	25.01.2011
5.	डॉ. (सुश्री) निशता रमावत	सीजीएचएस फस्ट एंड पोस्ट, भारतीय उच्चतम न्यायालय	10.02.2010	10.02.2011

अमरजीत सिंह, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2012

सं. ए.-11013/07/2011-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री एम. अतिशेषन, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा सचिवालय, तमिलनाडु सरकार को 12 जुलाई 2012 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेल्वन) के सहायक निजी सचिव (पीबी-3, ग्रेड वेतन 5,400/- रुपए) के रूप में नियुक्त करती हैं।

श्री एम. अतिशेषन की नियुक्ति समकालिक आधार पर अथवा मंत्री जी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की जाएगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए.-38012/02/2009-ई.-I(आयुष)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर डॉ. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सलाहकार (आयुर्वेद), आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 31.07.2012 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

चंद्र शेखर, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 2012

सं. 20011/01/2010-बीज.-II--राष्ट्रपति, कृषि इंजीनियरिंग कालेज एवं अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कुमुलुर, तमिलनाडु के एसोसिएट प्रोफेसर (बीज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) डॉ. पी. मासिलामनी को कृषि एवं सहकारिता विभाग के दिनांक 08 जून, 2012 के पत्र सं. 20011/01/2010-बी-II में निर्धारित निबंधनों एवं शर्तों पर अल्पकालिक संविदा आधार पर 37,400--67,000/- रुपये के पे बैंड + ग्रेड पे 8,700/- रुपये (पीबी-4) में निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी (सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर 13 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करती हैं।

स्मृति शरण, निदेशक (बीज)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2012

सं. 11023/23/फैसल/2012-आईटी.--राष्ट्रपति, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद में कार्यरत श्रीमती एस. ममता, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसडी को 27.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से स्थानांतरण आधार पर 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/- रुपए के पे बैंड-3 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-एसडी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती एस. ममता, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, हैदराबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करती रहेगी। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

दिनांक 6 जून 2012

सं. 11023/01/फैसल/2012-आईटी.--राष्ट्रपति, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद में कार्यरत श्रीमती नीतू, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एससी को 15.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद से स्थानांतरण आधार पर 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के पे बैंड-3 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में वैज्ञानिक-एससी के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्रीमती नीतू, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करती रहेगी। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. 11023/01/फैसल/2012-आईटी.--राष्ट्रपति, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद में कार्यरत डॉ. शिबेन्दु शंकर रे, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एसजी को 14.03.2012 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद से स्थानांतरण आधार पर 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड पे 8,900/- रुपए के पे बैंड-4 में कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में नई दिल्ली में महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र, नई दिल्ली में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

डॉ. शिबेन्दु शंकर रे, अनुसंधान अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में अपनी पात्रता के अनुसार वेतन, भत्ते और प्रोत्साहन आहरित करते रहेंगे। तथापि, नई दिल्ली में यथा-स्वीकार्य स्थान आधारित भत्ते (अर्थात् मकान किराया भत्ता) दिया जाएगा।

प्रमोद कुमार सिंह, अवर सचिव

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2012

सं. 32014/1/2012-स्था.-1अ.सा.--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस निदेशालय के श्री दुधाराम, तकनीकी सहायक को पे-बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) + 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में आर्थिक अधिकारी (ग्रुप-बी, राजपत्रित/अननूसचिवीय) के पद पर 06.07.2012 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. ए-32014/2/2009-स्था.-1अ.सा.(भाग)--विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति इस निदेशालय के श्री एस. के. दास तथा श्री एस. सी. गुप्ता, विपणन आसूचना निरीक्षकों को पे-बैंड-2 (9,300--34,800/- रुपए) + 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में 17.04.2012

से आर्थिक अधिकारी विपणन आसूचना (ग्रुप-बी, राजपत्रित/अननूसचिवीय) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. श्रीवास्तव, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

प्राकृतिक संसाधन प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 जुलाई 2012

सं. 2-4/2003-एनआरएम-II--राष्ट्रपति द्वारा डॉ. टी. के. देब, मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (एसएसओ) को पे-बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. वेतनमान 7,600/- रु. के ग्रेड पे पर वरिष्ठ मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (एसएसएसओ), जीसीएस, समूह 'क' राजपत्रित पद हेतु पदोन्नति आधार पर मुख्यालय, पूसा, नई दिल्ली में भारतीय मृदा तथा भू-उपयोग सर्वेक्षण में दिनांक 02.07.2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त किया जाता है।

बी. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए-19014/62/2008-स्थापना--श्री सुरेश कुमार गुप्ता, प्रधान निजी सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (कृ.अ.शि.वि.) अधिकाधिक की आयु पूरी करने पर सरकारी सेवा से 31.07.2012 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त होंगे।

विजय सिंह, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए-19011/1/2012-स्था.--महामहिम राष्ट्रपति जी, श्री दिलीप कुमार को पंचायती राज मंत्रालय में दिनांक 19 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से पे-बैंड (पीबी-4) में 37,400--67,000/- रुपए + ग्रेड पे 8,700/- रुपए के वेतनमान में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

आर. शिव कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 अप्रैल 2012

सं. ए-32013/1/2011-ई.-III--वर्तमान में सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत, श्रीमती गुरमीत कौर तलवार का नाम वर्ष 2010 की प्रधान निजी सचिव की चयन सूची के वरिष्ठता कोटे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) दिनांक 20.03.2012 के द्वारा शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें दिनांक 02.4.2012 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के काडर यूनिट में वेतन बैंड-3

(15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए) में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. 4(254)/84-कार्मिक-I--इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में निदेशक (इन-सीट्ट), श्री भारत भूषण बहल (कर्मचारी कोड सं. 203) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2012 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. पीएफ/3355/एनआईसी/2012-प्रशा.-I--श्री अशोक कुमार कांडवाल, वैज्ञानिक 'एफ', (कर्मचारी कोड सं. 3355), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, मुख्यालय, नई दिल्ली में दिनांक 31 जुलाई, 2012 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, संयुक्त निदेशक (प्रशा.-I)

नागर विमानन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2012

सं. ए-12022/1/2010-प्रशा.--राष्ट्रपति जी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.05.2012 के आदेश सं. 5/7/2011-सीएस-1 (यू) के अनुसरण में, नागर विमानन मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 01.06.2012 से 31.05.2013 अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अवर सचिव (सीएसएस I ग्रेड) के पद पर नियुक्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम	तैनाती
1.	श्री विजयानंद पटनायक	डीजीसीए
2.	श्री सैयद इमरान अहमद	मंत्रालय (मुख्य)
3.	श्री उमेश कुमार भाटिया	मंत्रालय (मुख्य)
4.	श्री एस. बी. रमण	मंत्रालय (मुख्य)
5.	श्री सतीश चन्द्र	मंत्रालय (मुख्य)
6.	श्री शैलेश कुमार	बीसीएस
7.	श्री बी. के. श्रीवास्तव	डीजीसीए

2. उक्त सभी अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति उस ग्रेड में अनिश्चित समय तक जारी रखने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रेड I में ज्येष्ठता का दावा करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं प्रदान करेगी। कोई कारण बताए बिना तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. उक्त सभी अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 और 15.12.2011 के आदेश सं. 5/3/2010-सीएस-I (यू) में उल्लिखित शर्तों के अधीन की गई है।

ओमा नन्द, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ई(ओ)-III-2012/आरएन/27--श्री संजय अग्रवाल, एसएजी/आईआरएसई (जन्मतिथि : 10.01.1965 और डीआईटीएस : 15.03.1988) का राइट्स में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने दिनांक 06.07.2012 (अपराह्न) से रेलवे सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. ईआरबी-I-2009/2/82--राष्ट्रपति जी, श्री डी. के. जैन, एसएजी/आईआरएसएस, कार्यपालक निदेशक, रेल भंडार (पी), रेलवे बोर्ड को एचए ग्रेड में पदोन्नत होने पर 06.07.2012 के अपराह्न से सलाहकार, रेल भंडार (पी), रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 27 जुलाई 2012

सं. ईआरबी-I/2010/10/4--डॉ. मेनका एस. जैन, निदेशक (औद्योगिक स्वास्थ्य), रेलवे बोर्ड दिनांक 18.07.2012 के पूर्वाह्न से स्वैच्छा से सेवानिवृत्त हो गई हैं।

आर. सी. जाट, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-32013/1/2009-ई-I (बी)--राष्ट्रपति, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19.07.2012 के का. ज्ञा. सं. 1/1/2012-सीएस-II(ए) के तहत केन्द्रीय सचिवालय

आशुलिपिक सेवा के प्रधान स्टाफ अधिकारी की 2012 की चयन सूची में नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सीएसएसएस संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में वर्तमान में कार्य कर रहे श्री प्रेम पाल को पे बैंड-4 (37,400--67,000/- रु. + ग्रेड पे 8,700/- रु.) में दिनांक 19.07.2012 (अपराहन) से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में नियमित आधार पर सीएसएसएस में प्रधान स्टाफ अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. आर. मीणा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 जुलाई 2012

सं. 298/2012 (फा.सं. 5/1/2012-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 22.05.2012 के का. ज्ञा. सं. 11/2/2012-ईओ (एमएम-1) के तहत केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु उनके चयन के परिणामस्वरूप, सुश्री नीति सरकार, भारतीय रेलवे लेखा सेवा (1995) को दिनांक 04.07.2012 (पूर्वाहन) से इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उक्त का. ज्ञा. के अनुसार, इस मंत्रालय में निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल दिनांक 03.7.2012 तक अर्थात् पद ग्रहण करने की तारीख से 05 वर्ष की अवधि तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, होगा।

3. इस मंत्रालय में निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति होने पर, उन्हें तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक निदेशक (बीसी) के रूप में पदनामित किया जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2012

सं. 301/2012 (फा.सं. 6/1/2007-प्रशा.-II)--श्री राजेश कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केएल : 89) की इस मंत्रालय के प्रसारण स्कंध में हाल ही में सृजित किए गए पद पर केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत दिनांक 09.07.2012 (पूर्वाहन) से संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्ति होने के फलस्वरूप, उन्हें संयुक्त सचिव (प्रसारण-II) के रूप में पदनामित किया जाता है। वह प्रसारण स्कंध में निम्नलिखित कार्य देखेंगे :--

- (i) एफएम
- (ii) प्रसारण (वित्त एवं विकास)
- (iii) प्रसारण (प्रशासन)

2. तदनुसार, उप सचिव (बीडी), निदेशक (बीएपी और बीए-ई) और उप सचिव (एफएम) अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ उन्हें रिपोर्ट करेंगे।

3. इसके परिणामस्वरूप, सुश्री सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव (प्रसारण) को संयुक्त सचिव (प्रसारण-I) के रूप में पुनः पदनामित किया जाता है। वह प्रसारण स्कंध में शेष कार्य नामतः प्रसारण विषय-वस्तु, डीडी (इन्सैट), सामुदायिक रेडियो सेवा एवं डिजिटलीकरण सहित प्रसारण नीति व विधान से संबंधित कार्य संभालेंगी। तदनुसार, निदेशक (बीसी) और उप सचिव (बीपीएण्डएल) अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ उन्हें रिपोर्ट करेंगे।

4. उपर्युक्त कार्य - आबंटन तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक लागू होगा।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 10 जुलाई 2012

सं. 302/2012 (फा.सं. 6/1/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री राजेश कुमार सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा (केरल : 89), सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, केरल सरकार को 10,000/- रु. के ग्रेड पे के साथ 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड-4 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् दिनांक 09.07.2012 (पूर्वाहन) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त पद पर नियुक्त करती हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2012

सं. 324/2012 (फा.सं. 6/1/2007-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री अनुराग श्रीवास्तव, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तर प्रदेश : 92), आयुक्त, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश सरकार को 10,000/- रु. के ग्रेड पे के साथ 37,400--67,000/- रु. के पे बैंड-4 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत संयुक्त सचिव के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख अर्थात् दिनांक 20.07.2012 (पूर्वाहन) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त पद पर नियुक्त करती हैं।

2. इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेशों तक संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशा.) के रूप में पदनामित किया जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2012

सं. ए-11019/2011-प्रशा. I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/3/2011-सीएस-II(ए) के तहत सीएसएसएस की वर्ष 2010 की चयन सूची में प्रधान निजी सचिव ग्रेड (पीपीएस) में नियमित आधार पर नियुक्ति हेतु उनके नामांकन किए जाने के फलस्वरूप सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित नियमित स्टेनो ग्रेड 'ए एवं बी' (सम्मिलित)(निजी सचिवों) जो इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं को वर्ष 2010 की चयन सूची के नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	श्रेणी	जन्म तिथि	पद स्थापन का स्थान
	सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती			
1.	राज कुमार ठाकुर	सामान्य	10.07.1958	सीपीडब्ल्यूडी, चण्डीगढ़
2.	अविनाश चंदर उप्पल	सामान्य	01.11.1953	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
3.	धरम वीर सिंह	सामान्य	10.07.1955	संयुक्त सचिव (श.वि.), शहरी विकास मंत्रालय
4.	धरम बीर सिंह	सामान्य	08.04.1953	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
5.	आशा निचनी	सामान्य	22.06.1954	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
6.	ललिता रामचंद्रन	सामान्य	16.10.1961	अतिरिक्त महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी (डब्ल्यूआर) सीपीडब्ल्यूडी, मुम्बई
7.	सुश्री आशा विश्वनाथन	सामान्य	06.12.1953	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
8.	सुश्री शर्मा अनेजा	सामान्य	11.12.1959	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
9.	श्री राजिंदर सिंह	सामान्य	23.09.1953	मध्यस्थ का कार्यालय, दिल्ली
10.	श्रीमती कामिनी बंसल	सामान्य	26.02.1961	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
11.	सुरेंद्र सिंह	सामान्य	12.07.1952	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
12.	टी. टी. जैकब	सामान्य	10.05.1959	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
13.	सुश्री आशा शर्मा	सामान्य	30.05.1962	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
14.	विजय कुमार	सामान्य	03.03.1953	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
15.	जॉइस एडी सूजा	सामान्य	04.06.1955	सीई (डब्ल्यूजैड-I), सीपीडब्ल्यूडी, मुम्बई
16.	राकेश कुमार	सामान्य	04.11.1962	सचिवालय [संयुक्त सचिव (यूटी)]
17.	रजनी आहूजा	सामान्य	22.08.1964	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
18.	श्रीमती कल्पना रमेश	सामान्य	03.02.1966	आर्थिक सलाहकार शहरी विकास मंत्रालय
19.	राजेश कुमार श्रीवास्तव	सामान्य	15.07.1959	सीई (एनजैड-II), सीपीडब्ल्यूडी, लखनऊ
20.	वी. वी. राधा कृष्णन	सामान्य	15.01.1967	सीई (ई), एसआर, चेन्नई
21.	अलामेलू श्रीराम	सामान्य	31.01.1959	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
22.	सतिश एन.	सामान्य	05.06.1967	अपर सचिव (श.वि.), शहरी विकास मंत्रालय
23.	एस. जयरामन	सामान्य	26.01.1959	अतिरिक्त महानिदेशक (एसआर), सीपीडब्ल्यूडी, चेन्नई
24.	ए. के. पासी	अनु. जाति	05.04.1963	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
25.	सुश्री पूनम पाल	सामान्य	23.08.1964	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
26.	रविमती	सामान्य	05.10.1954	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
27.	सुरेश शर्मा	सामान्य	01.01.1961	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी
28.	सुश्री सुनीता शर्मा	सामान्य	05.08.1962	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
29.	राम दीन	सामान्य	10.07.1961	महानिदेशक, सीपीडब्ल्यूडी

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ए-12025(iii)/2/2010-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-III(पी.पी. व सी.)/
यू.डी.-II--इस मंत्रालय के दिनांक 06.07.2012 के कार्यालय ज्ञापन
सं. ए-12025(I)/2/2010-टी.सी.पी.ओ./प्रशासन-III(पी.पी. व सी.)
के अनुसरण में, सुश्री जासमिन बिमरा ने नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन

में सहायक नगर एवं ग्राम नियोजक के पद (सा.के.से. समूह 'क'
राजपत्रित) पर वेतन बैंड-3 में रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन
रु. 5,400/- पर दिनांक 16.07.2012 से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

के. जी मोहन्ता, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 31st July 2012

No. A-38014/2/2012-PME.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar Prasad, Principal Private Secretary of CSSS cadre of Department of Economic Affairs working in this office, is retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

R, MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 25th July 2012

No. RS 36/1/2012/69-Perl.—The Chairman, Rajya Sabha has been pleased to extend the term of Dr. Vivek Kumar Agnihotri, as Secretary-General, Rajya Sabha on existing terms and conditions for a period upto 30th September, 2012 or until further orders.

D. B. SINGH, Additional Secy.

New Delhi-110001, the 1st August 2012

No. RS/20/1/2012/71-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Naresh Chandra Joshi, Secretary, retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

No. RS/20/1/2012/72-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Radhe Shiam Sharma, Joint Director (Reporting), retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

No. RS/20/1/2012/73-Perl.—On attaining the age of superannuation, Shri Ram Kumar Sharma, Deputy Director (E&T), retired from service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

S. RANGARAJAN, Deputy Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 12th July 2012

No. A-19011/05/2012-Ad-I.—The President is pleased to appoint Shri L. C. Goyal, IAS (KL:79) as Additional Secretary, Cabinet Secretariat for a period of one year w.e.f. 3rd July, 2012.

V. K. GAUBA, Director

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 12th July 2012

No. 3(9)/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Shehzad Sarfaraz Poonawalla as Additional Private Secretary to the Minister of State for Parliamentary Affairs (Shri Rajeev Shukla) in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- w.e.f. 21.05.2012 (FN).

2. The appointment is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of the Minister of State (Shri Rajeev Shukla) or till he ceases to function as Additional Private Secretary to the Minister of State, or until further orders, whichever event occurs at the earliest.

RAMESHWAR PRASAD, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 20th July 2012

No. A. 22016/2/2012-I.—The President is pleased to appoint Ms. Kalyani Sethuraman, IRAS (1994) as Director (Budget) in the Department of Space, Bangalore, with effect from the afternoon of 12th July, 2012 and until further orders.

S. N. RAMAKRISHNA, Deputy Secy.

Bangalore-560 031, the 23rd July 2012

CORRIGENDUM

No. 3/1(1)/2012-I.—In Partial modification of this Department's notification of even number dated 30.11.2011, the name mentioned at Sl. No. 15 may please be read as T. Ezhilarasi instead of T. Ezhilakasi.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I.—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1	2	3
	Shri/Smt/Kum.	
1.	Busanaboyina Mayuri	08.08.2011
2.	Katta Eswara Dilip Kumar	11.08.2011
3.	Vasu Dubey	11.08.2011
4.	Danda Deepak Reddy	11.08.2011
5.	Supratim Naskar	11.08.2011
6.	Sneha Kishor Patkotwar	11.08.2011

1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
7.	Viswa Theja Ganne	11.08.2011
8.	Smijith G.B.	28.11.2011
9.	Prabhu V.R.	14.11.2011
10.	Sivsankar Harish Kumar	19.10.2011
11.	Mrityunjay Bansal	29.09.2011
12.	Mithun Kumar	21.09.2011
13.	Rahul Jhanwar	21.09.2011
14.	P. Parameshwar Reddy	21.09.2011
15.	Goutam Nayak	07.09.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Officers to the posts mentioned against each in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which Promoted	Date of Promotion
	Shri/Smt./Kum.		
1.	K. N. Raghuram	Senior Purchase & Stores Officer	21.12.2011
2.	R. Padmakumar	Senior Purchase & Stores Officer	12.12.2011
3.	P. Sreenathan	Senior Head, Accounts/IFA	29.12.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(2)/2012-I—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Smt. Elizabeth Jose K., Scientist/Engineer-SE in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 07.12.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Mandeep Singh, Scientists/Engineers-SC in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the forenoon of 04.11.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of the 31.01.2012 :—

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Dr. P. P. Sinha	Outstanding Scientist
2.	Dr. Desh Deepak	Scientist/Engineer-SG
3.	K. Palanivelu	Scientist/Engineer-G
4.	K. S. Gopalakrishnan Nair	Scientist/Engineer-SF
5.	K. Srinivasan	Scientist/Engineer-SE
6.	E. Rajan	Scientist/Engineer-SE

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 3/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers and Officers in the Vikram Sarabhai Space Centre, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	C. Sreekumaran Nair	Scientist/Engineer-SE	31.12.2011
2.	Vanaja V.	Scientist/Engineer-SF	30.11.2011
3.	Dr. Thomas Kuriyan	Outstanding Scientist	31.10.2011
4.	S. Gopakumar	Scientist/Engineer-H	31.10.2011
5.	K. Sreekumar	Scientist/Engineer-G	30.09.2011
6.	T. K. Suresh Babu	Scientist/Engineer-SG	30.09.2011
7.	Livingston Knox T.	Senior Purchase & Stores Officer	30.09.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of

Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Debabrata Tewary	27.03.2012
2.	Sathya Narayanan J.	28.03.2012
3.	Mamta Sah	24.04.2012
4.	D. Thamilarasi	13.04.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers and Officers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	K. K. Chandramadan	Scientist/Engineer-SE	29.02.2012
2.	K. Harendranath	Scientist/Engineer-SG	30.04.2012
3.	M. Sivaraman	Scientist/Engineer-SF	30.04.2012
4.	M. Venkata Rao	Scientist/Engineer-H	30.04.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Shri K. Lakshmaiah, Scientist/Engineer-SD in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 01.03.2012.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation Dr. T. K. Alex, Director in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30.06.2012.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

The 25th July 2012

No. 5/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the resignation from service the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Abhinav	Scientist/Engineer-SC	02.03.2012
2.	Shiv Asheesh Singh	Scientist/Engineer-SC	31.05.2012
3.	Aparna Mohan	Scientist/Engineer-SC	22.06.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 5/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the technical resignation from service the following Scientists/Engineers in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Post	Date of Relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Saumyaketu Mishra	Scientist/Engineer-SE	27.02.2012
2.	Vishal Srivastava	Scientist/Engineer-SC	30.04.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Shreejith T. V.	08.08.2011
2.	Rajarshi Roy Chowdhury	21.09.2011
3.	Dhinesh R. K.	21.09.2011
4.	Hariom Kumar	23.12.2011
5.	Pallavi Mallar	26.12.2011

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint Dr. Dona Stephen as Medical Officer-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahendragiri of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 20.01.2012 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahendragiri of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment
	Shri/Smt./Kum.	
1.	I. Arun	07.09.2011
2.	J. Praveen Kumar	14.12.2011
3.	Karthikeya Venkatesh R.	12.01.2012
4.	M. R. Vomchander	19.01.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation the following Scientists/Engineers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space have relinquished the charge of the post mentioned against each with effect from the afternoon of 29.02.2012 :—

Sl. No.	Name	Post
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Babu K.	Junior Engineer
2.	P. P. Kailasanathan	Scientist/Engineer-H
3.	C. Amarasekaran	Scientist/Engineer-H
4.	Sasidharan Nair K.	Scientist/Engineer-H

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation Shri D. R. Selvanayagam, Scientist/Engineer-H in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahendragiri of the Department of Space have relinquished the charge with effect from the afternoon of 30.04.2012.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2012-I—Consequent on attaining the age of superannuation Shri D. Raja Manohar, Scientist/Engineer-SG in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahendragiri of the Department of Space has relinquished the charge with effect from the afternoon of 30.09.2011.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

The 28th July 2012

No. 7/1(1)/2012-I—The President is pleased to appoint Shri Hari Shankar Mishra as Purchase & Stores Officer in the Liquid Propulsion Systems Centre, Mahendragiri of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 01.11.2010 and until further orders.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the resignation from service of the following Scientists/Engineers in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Alok Kesharwani	Scientist/Engineer-SC	22.02.2012
2.	Alok Kumar Bajpai	Scientist/Engineer-SC	29.02.2012
3.	Sundeep Chauhan	Scientist/Engineer-SC	01.03.2012
4.	Naveen Chandra Bhatt	Scientist/Engineer-SD	07.03.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

No. 7/1(2)/2012-I—The President is pleased to accept the technical resignation from service of the following Scientists/Engineers-SD in the Liquid Propulsion Systems Centre, Valiamala, Thiruvananthapuram of the Department of Space with effect from the afternoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of Resignation
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Niloy Ghosh	30.12.2011
2.	Somenath Dey	24.02.2012

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 23rd July 2012

No. A.-38013/1/2012-Admn.I(LD)—On attaining the age of superannuation, Smt. Reema Malhotra, Private Secretary (CSSS) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice stands retired from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 19th July 2012

No. A-12025/06/2010-Admn.I(LA)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Smt. Arti Chopra, Superintendent (Legal), Department of Legal Affairs as Assistant Legal Adviser (Grade-IV of Legal Advisers service cadre of the Indian Legal Service), in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, w.e.f. the forenoon of 16th July, 2012 or until further orders.

2. The appointment of Smt. Arti Chopra to the post of Assistant Legal Adviser is provisional and will be subject to the final outcome of O.A. No. 1741/2012 and 1723/2012 pending in Hon'ble Central Administrative Tribunal, Principal Bench, New Delhi.

NIRMAL SINGH, Director

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 7th June 2012

No. K-11019/3/2012-US. II—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Jasbir Singh, seniormost Judge of the Punjab & Haryana High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from the date Justice Shri Mahesh Mittal Kumar, Acting Chief Justice of the Punjab & Haryana High Court, relinquishes charge of his office consequent upon his appointment as Chief Justice of the Jammu & Kashmir High Court.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-13021/2/2012-US. II—In exercise of the powers conferred by section 95 of the Constitution of Jammu and Kashmir, the President is pleased to appoint Justice Shri Mahesh Mittal Kumar, Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be the Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 14th June 2012

No. K-13014/2/2012-US. I—Justice Shri Girish Shrikrishna Godbole resigned from the office of the Additional Judge of the Bombay High Court, in pursuance of proviso (a) to Clause (1) of article 217 of the Constitution, with effect from 14th May 2012.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11017/06/2012-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Justice Shri Pinaki Chandra Ghose, Judge of the Calcutta High Court, as a Judge of the Andhra Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Andhra Pradesh High Court on or before 28th June, 2012.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

No. K-11019/3/2012-US. I—In exercise of the powers conferred by article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Justice Shri Pinaki Chandra Ghose to perform the duties of the office of the Chief Justice Andhra Pradesh High Court with effect from the date he assumes charge of his office in that High Court consequent upon his transfer to the Andhra Pradesh High Court vide Notification No. K-11017/06/2012-US. II dated 14th June, 2012.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 26th June 2012

No. K-13029/07/2010-US. II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Kumari Justice Nirmaljit Kaur, Additional Judge of Punjab and Haryana High Court to be Judge of that High Court with effect from the date she assumes charge of her office.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

The 27th June 2012

No. K-13013/01/2011-US. I (Pt.)—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Chagari Praveen Kumar and (ii) Shri Mamidanna Satya Ratna Sri Ramachandra Rao, to be Additional Judges of the Andhra Pradesh High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

SNEHLATA SHRIVASTAVA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 3rd August 2012

No. I-18011/7/2011/IPS-IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Pandey Santosh, IPS (WB-2006), in the Indian Police Service with effect from 18.12.2008.

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 23012/8/2012-AIS-III—Ms. Rupanjali, appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2007 and borne on the cadre of Punjab, has been permitted to change her name from Ms. Rupanjali to Smt. Rupanjali Karthik. She will accordingly be recognised as Smt. Rupanjali Karthik for all official purposes.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

The 26th July 2012

No. 14012/22/2012-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Punjab Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
	S/Sh.		
1.	Amit Kumar	2008	01.09.2010
2.	Joram Beda	2008	01.09.2010
3.	Rupanjali	2008	01.09.2010
4.	Supreet Singh Gulati	2008	01.09.2010

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

New Delhi, the 26th July 2012

No. 13017/03/2012-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Government of Bihar and the Ministry of Home Affairs the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Dr. Ashima Jain, IAS (BH : 08) from Bihar cadre to AGMUT cadre (Delhi segment) for a period of

three years from date of assumption of charge or until further orders, whichever is earlier.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE

New Delhi, the 31st July 2012

No. 15011/02/2012-Admn. I—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri R. C. Misra, IAS (OR : 76), Secretary, Department of Administrative Reforms and Public Grievances and Department of Pension & Pensioners' Welfare, retires from Government service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

TRIPTI P. GHOSH, Director

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 20th July 2012

No. 11 (F. No. A-38014/2/2012-AD. IA)—Shri Gita Bhushan Sharma, an Officer of the Central Secretariat Stenographers Service, posted as Principal Private Secretary in the Department of Revenue is retiring from Government Service w.e.f. 31st July, 2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

The 23rd July 2012

No. 12 of 2012 (F. No. A-32014/02/2011-AD. IA)—The President is pleased to appoint Smt. Alarnel Mangai regular Steno Grade 'C' of CSSS as Steno Grade 'A&B' (Merged) (Private Secretary) of CSSS on regular basis in the Department of Revenue w.e.f. 1st September, 2011 on the basis of inclusion of her name in the Select List for the year 2009 against Seniority Quota vide DOP&T's O.M. No. 5/27/2010-CS. II (A) dated 16.3.2011.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 5th July 2012

No. A-19011/10/2011-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Puneet Agarwal, IAS (MT : 98), Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 2nd July, 2012 for the balance period of his tenure i.e. up to 19.10.2013 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

No. A-19011/2/2010-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Ritvik Ranjanam Pandey, IAS (KN : 98), Deputy Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance as Director in the same Department as a measure personal to him with effect from the forenoon of 2nd July, 2012 for the balance period of his tenure i.e. up to 23.08.2012 or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 30th July 2012

No. 9/4/2012-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training (ACC)'s O.M. No. 18/17/2012-EO (SM-I) dated 26th June, 2012, the President is pleased to appoint Ms. Sāngita Chandrakant Choure (IA&AS : 1987) as Joint Secretary with effect from the forenoon of 23rd July, 2012 in the Department of Disinvestment in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- (PB-4), on central deputation under Central Staffing Scheme for a period of five years i.e. upto 22nd July, 2017 or until further orders, whichever event takes place earlier.

D. CHATTOPADHYAY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110001, the 20th July 2012

No. PFG(1028)/2012-Adm. I—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/1/2012-ISS dated 3.4.2012, Shri Ram Swaroop Singh, an officer of Indian Statistical Service is appointed as Assistant Director w.e.f. the forenoon of 12.07.2012, in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (Grade Pay).

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 25th July 2012

No. A-38013/1/2012-Cadre—On attaining the age of superannuation, the following Section Officers of CSS Cadre of Supply Division, retires from Government service with effect from the date mentioned against their names :—

S. No.	CSL No.	Name	Date of Birth	Date of superannuation
		S/Shri		
1.	7747	R. C. Atri	28.07.1952	31.07.2012 (A/N)
2.	—	R. C. Syal	11.07.1952	31.07.2012 (A/N)

SANJOY SHANKAR, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 4th July 2012

No. A-32013/1/2012/HRD-I—The President is pleased to appoint Dr. L. B. Singhal, ITS, as Additional Director General of Foreign Trade in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Office of the Directorate General of Foreign Trade, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, with effect from the afternoon of 29th June, 2012, and until further orders.

G. A. REDDY, Dy. Director General of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

New Delhi, the 24th July 2012

No. A-12022/02/2011-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Surender K. Ahluwalia, a regular officer of the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS as Director in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, consequent on his inclusion in the Select List of Senior Selection Grade of CSS (Director) for the year 2012.

2. Shri Surender K. Ahluwalia relinquished the charge of the post of Deputy Secretary in the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from the forenoon of 5th July, 2012 and has assumed the charge of the post of Director with effect from the forenoon of 5th July, 2012.

L.K. SHARMA, Under Secy.

The 31st July 2012

No. A-19012/1323/11-E.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Anil Kumar, Private Secretary in the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, shall stand retired from Government service, with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

L.K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 12th July 2012

No. 10/2012 (A-12022/1/2012-Estt.)—The President is pleased to appoint Smt. Geeta Narayan, CSS as Director in the Ministry of Textiles in pay Band 4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 9th July, 2012 and until further orders.

SUMINDER KAUR, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 25th July 2012

No. A-47011/1/2012-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No.

12015/1/2012-ISS dated 30.05.2012, the President is pleased to appoint Shri K.S. Soni, Statistical Investigator Grade I in the Ministry of Petroleum & Natural Gas as Assisant Director on ad-hoc basis in the Pay Band 3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. the forenoon of 10.07.2012 and posted in E&S Division of the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

2. The appointment of Shri Soni to the grade of Assistant Director is purely on adhoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniotiry in the grade of Asstt. Director.

K.M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 24th July 2012

No. 12/4/2012-ASO—The President is pleased to appoint Shri Alok Perti, as Adviser in the Ministry of Coal, in the rank and pay of Secretary, on contract basis, for a period of three months with effect from 01.06.2012.

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 30th July 2012

No. P-1240/2009-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Anurag Bhalla, Under Secretary in Department of Consumer Affairs will retire from Government Service in the afternoon of 31st July 2012.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 31st July 2012

No. A-12011/2/2010-Estt.—In pursuance of Department of Personnel, & Training's Order No. 4/4/2011-CS.I(D) dated 31st July, 2012, the President is pleased to appoint Shri Anurag Bhalla, Under Secretary of Grade-I of CSS as Deputy Secretary (Selection Grade) of CSS purely on ad-hoc basis in the Pay Band (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/-, in the Department of Consumer Affairs with effect from the 31st July, 2012 or until further orders by upgrading the post of Under Secretary to Deputy Secretary on personal basis.

2. The adhoc promotion of Shri Anurag Bhalla shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.

3. The adhoc appointment are subject to the final outcome of the pending Writ Petitions in High Court of Delhi and the

SLP (C) in the Supreme court and also any other order by any competent court in any of the connected matters.

M.A. CHAUDHURY, Under Secy.

No. P-1240/2009-Estt.—In supersession of this Department's Notification of even number dated 30.07.2012, Shri Anurag Bhalla, Deputy Secretary in Department of Consumer Affairs will retire from Government service in the afternoon of 31st July, 2012 on attaining the age of superannuation.

M.A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 18th July 2012

No. 17013/15/2010-IFS.II—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has apporved the Select List for promotion from State Forest Service of Tamil Nadu to the Indian Forest Service for the Select List 2010 prepared in the Selection Committee meeting held on 27.12.2011 containing the names of the State Forest Service officers of Tamil Nadu Towards filling up of promotion quota vacancies available in Tamil Nadu cadre of the Indian Forest Service:—

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	P. Jayabalan	05.07.1956
2	S.A. Raju	31.12.1956

S.S. BADHAWAN, Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 27th July 2012

No. A. 12025/141/2010-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lekha Rani Das to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 26.04.2011 until further orders. Dr. Lekha Rani Das is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Guwahati. Dr. Lkkha Rani Das shall be on probation for two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

No. A. 12025/285/2007-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is

pleased to appoint Dr. Ram Avtar Malav to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of Pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12.06.2009 until further orders. Dr. Ram Avtar Malav is posted as Medical Officer under RHTC Najafgarh. He will be on a probation period of two years from the date of appointment.

M.K. SHARVAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 30th 2012

No. A. 12025/12/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashish Kumar Arsia to the post of Assistant Professor in the speciality of Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 7th March, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110108, the 23rd July 2012

No. A. 31013/01/2012-CHS. VI—The President is pleased to appoint substantively the following Dental Surgeons in service cadre of General Central Services, with effect from the dates mentioned against each:—

S.No.	Name	Present place of posting	Date of Appointment	Date of confirmation
1.	Dr. Srihari Rao Bellam	CGHS, Hyderabad	17.07.2008	17.07.2009
2.	Dr. (Mrs.) Ankita Chandra	CHGS (NZ) Pusa Road Polyclinic, New Delhi	07.07.2008	07.07.2009
3.	Dr. Gursimarjit Singh Chhatwal	Dr. RML Hospital, New Delhi	25.01.2010	25.01.2011
4.	Dr. Shivangi Maletia	CGHS Wing S.J. Hosp., New Delhi	25.01.2010	25.01.2011
5.	Dr. (Mrs.) Nishtha Ramavat	CGHS First Aid Post, Supreme Court of India	10.02.2010	10.02.2011

AMARJIT SINGH
Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th July 2012

No. A-11013/7/2011-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri M Athiseshan, Section Officer in Legislative Assembly Secretariat, Government of Tamil Nadu, as Assistant Private Secretary (PB-3, Grade Pay Rs. 5,400/-) to the Minister of State for Health and Family Welfare (Shri S Gandhiselvan) with effect from the forenoon of 12th July 2012.

2. Appointment of Shri M. Athiseshan will be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever is earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

New Delhi, the 31st July 2012

No. A-38012/2/09-E-I(Ayush)—On attaining the age of superannuation, Dr. Surinder Kumar Sharma, Adviser (Ayurveda), Department of Ayush, Ministry of Health & Family Welfare stands retired from the Government Service with effect from 31.07.2012 (A.N.).

CHANDRA SHEKHAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 26th July 2012

No. 20011/1/2010-SD.II—The President is pleased to appoint Dr. P. Masilamani, Associate Professor (Seed Science & Technology), Agricultural Engineering College and Research Institute, Tamil Nadu Agriculture University, Kumulur, Tamil Nadu as Director, National Seeds Research & Training Center, Varanasi (General Central Services, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + GP Rs. 8,700/- (PB: 4) on short term contract basis on the terms and conditions laid down in the Department of Agriculture & Cooperation's letter No. 20011/1/2010-SD.II dated 8th June, 2012 with effect from forenoon of 13th July, 2012, until further orders.

SMRITI SHARAN, Director (Seeds)

New Delhi, the 5th June 2012

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Smt. S. Mamatha, Scientist/Engineer-SD, in the National Remote Sensing Centre, Hyderabad as Scientist-SD in Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on transfer basis from

National Remote Sensing Centre, Hyderabad w.e.f. 27.03.2012 (F/N) till further orders.

Smt. S. Mamatha will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per her entitlement in the National Remote Sensing Centre, Hyderabad. However, location based allowances (e.g House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

The 6th June 2012

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Smt. Neetu, Scientist/Engineer-SC, in the Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad as Scientist-SC in Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- on transfer basis from Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad w.e.f. 15.03.2012 (F/N) till further orders.

Smt. Neetu will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per her entitlement in the Space Application Centre, Ahmedabad. However, location based allowances (e.g House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

No. 11023/01/FASAL/2012-IT—The President is pleased to appoint Dr. Shibendu Shankar Ray, Scientist/Engineer-SG, in the Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad as Director, Mahalanobis National Crop Forecast Centre at New Delhi in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- on transfer basis from Space Application Centre, Department of Space, Ahmedabad w.e.f. 14.03.2012 (F/N) till further orders.

Dr. Shibendu Shankar Ray will continue to draw Salary, Allowances and Incentives as per his entitlement in the Space Application Centre, Ahmedabad. However, location based allowances (e.g House Rent Allowance) shall be paid as applicable in New Delhi.

PROMODE KUMAR SINGH, Under Secy.

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS

New Delhi, the 23rd July 2012

No. 32014/1/2012-E.I-ES.—On recommendations of the DPC, the President is pleased to appoint Shri Dudha Ram, Technical Assistant of this Directorate as Economic Officer (Group-B, Gazetted/Non-Ministerial) on regular basis in Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 06.07.2012.

R.K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

No. A-32014/2009-E.I-ES. (Part)—On recommendations of the DPC, the President is pleased to appoint S/Shri S. K.

Das and S. C. Gupta, Market Intelligence Inspectors of this Directorate as Economic Officers (Market Intelligence) (Group-B, Gazetted/Non-Ministerial) on regular basis in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800) + Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 17.04.2012.

R. K. SRIVASTAVA, Chief Administrative Officer

NATURAL RESOURCE MANAGEMENT

New Delhi, the 4th July 2012

No. 2-4/2003-NRM-II—The President is pleased to appoint Dr. T. K. Deb, Soil Survey Officer (SSO), to the post of Senior Soil Survey Officer (SSSO) GCS, Group 'A' Gazetted in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- in the Soil and Land Use Survey of India (SLUSI), on promotion basis, at the Headquarters, Pusa, New Delhi with effect from the forenoon of 02.07.2012 until further orders.

B. K. MALHOTRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH & EDUCATION

New Delhi, the 31st July 2012

No. A-19014/62/2008-Estt.—Shri Suresh Kumar Gupta, Principal Private Secretary (PPS) in the Department of Agricultural Research & Education (DARE) will retire from Government Service on 31st July, 2012 (AN) on attaining the age of superannuation.

VIJAY SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 31st July 2012

No. A-19011/01/2012-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Dilip Kumar, as Director in the Ministry of Panchayati Raj, in the Pay Band (PB-4) Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from the forenoon of 19th July, 2012.

R. SHIVA KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th April 2012

No. A-32013/01/2011-Estt.-III—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Principal Private Secretary for the Year 2010 against Seniority Quota vide Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/3/2011-CS-II (A) dated 20.03.2012, the President is pleased to appoint Smt. Gurmeet Kaur Talwar presently officiating as Principal Private Secretary of CSSS to the grade of Principal Private Secretary of regular basis in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/-) in the Cadre Unit of Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 02.04.2012 (FN).

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF ELECTRONICS & INFORMATION
TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 31st July 2012

No. 4(254)/84-Pers.-I—On attaining the age of superannuation, Shri Bharat Bhushan Bahl, Director (in-Situ), (Emp. Code-203), Department of Electronics & Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology retires from Service on 31.07.2012.

GIRISH SAHAI, Jt. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 31st July 2012

No. PF/3355/NIC/2012/Adm-I—Shri Ashok Kumar Kandwal, Scientist "F" (Emp. Code : 3355), National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012 and he stands relieved of his duties from the same day.

R. M. NAIR, Jt. Director (Adm-I)

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 18th July 2012

No. A-12022/01/2010-Admn.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Under Secretary (Grade-I of CSS) in the Ministry of Civil Aviation from 01.06.2012 to 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, in pursuance to DoPT's Order No. 5/7/2011-CS-I (U) dated 29.05.2012.

S.No.	Name of the Officer	Posting
1.	Shri Bijayananda Patnaik	DGCA
2.	Shri Syed Imran Ahmed	Ministry (main)
3.	Shri Umesh Kumar Bhatia	Ministry (main)
4.	Shri S. V. Ramana	Ministry (main)
5.	Shri Satish Chander	Ministry (main)
6.	Shri Shailesh Kumar	BCAS
7.	Shri B. K. Srivastava	DGCA

2. The ad-hoc appointment of all the officers shall not confer them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. The ad-hoc appointment of all the above officers is subject to conditions as mentioned in DoPT's Order No. 5/3/2010-CS-I (U) dated 26.05.2010, 03.09.2010, 11.11.2010, 11.08.2011 and 15.12.2011.

OMA NAND, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 24th July 2012

No. E(O) III-2012/RN/27—Consequent upon his permanent absorption in RITES, Shri Sanjay Agarwal, SAG/IRSE (DoB : 10.01.1965 & DITS : 15.03.1988), has resigned from Railway service with effect from 06.07.2012(AN).

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

The 25th July 2012

No. ERB-I-2009/2/82—The President is pleased to appoint Shri D. K. Jain, SAG/IRSS, Executive Director, Railway Stores (P), Railway Board as Adviser, Railway Stores (P), Railway Board on promotion to HA Grade with effect from afternoon of 06.07.2012.

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

The 27th July 2012

No. ERB/2010/10/04—Dr. Menka S. Jain, Director (Industrial Health), Railway Board, retired Voluntarily from Service with effect from the forenoon of 18.07.2012.

R. C. JAT, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 19th July 2012

No. A-32013/01/2009-E.I.- (B)—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of 2012 of Principal Staff Officer (PSO) of CSSS vide Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Personnel & Training's O.M. No. 1/1/2012_CS-II (A) dated 19.07.2012, the President is pleased to appoint Shri Prem Pal presently working as Senior Principal Private Secretary of CSSS in the Ministry of Road Transport & Highways, as Principal Staff Officer of CSSS on regular basis in the same Ministry in Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) with effect from 19.07.2012 (FN).

H. R. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 5th July 2012

No. 298/2012 (F. No. 5/1/2012-Admn.II)—Consequent upon her selection for appointment as Director in the Ministry of Information & Broadcasting Under Central Staffing Scheme vide DoPT's O.M. No. 11/02/2012-EO (MM-I) dated 22/05.2012, the President is pleased to appoint Ms. Neeti Sarkar, Indian Railway Accounts Service (1995), as Director in the Main Sectt. of this Ministry with effect from 04.07.2012 (FN).

2. As per DoPT's O.M. ibid, her tenure as Director in this Ministry would be upto 03.07.2017 i.e. for a period of 05 years from the date of taking over charge of the post or until further orders, whichever event takes place earlier.

3. On her appointment as Director in this Ministry, she is designated as Director (BC) with immediate effect and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 9th July 2012

No. 301/2012 (F. No. 6/1/2007-Admn.II)—Consequent upon appointment of Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (KL : 89), as Joint Secretary w.e.f. 09.07.2012 (FN) under Central Staffing Scheme against newly created post in Broadcasting Wing of this Ministry, he is designated as JS (B-II). He will look after the following work in the Broadcasting Wing:—

(i) FM;

(ii) Broadcasting (Finance & Development);

(iii) Broadcasting (Admn.).

2. Accordingly, DS (BD), Director (BA-P & BA-E) and DS (FM) alongwith their subordinate staff will report to him.

3. Consequently, Ms. Supriya Sahu, Joint Secretary (B) is re-designated as JS (B-I). She will look after remaining work in the Broadcasting Wing namely Broadcasting Content, DD (INSAT), Community Radio Service and Broadcasting Policy and Legislation including Digitization. Accordingly, Director (BC) and DS (BP&L) alongwith their subordinate staff will report to her.

4. The above work allocation shall take place with immediate effect and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 10th July 2012

No. 302/2012 (F. No. 06/01/2007-Admn.II)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Singh, IAS (KL : 89), Secretary, Local Self Government Department, Government of Kerala, as Joint Secretary under Central Staffing Scheme in Ministry of Information & Broadcasting in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from 09.07.2012 (F/N) for a period of five years from the date of assumption of charge of the post i.e. 09.07.2012 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 20th July 2012

No. 324/2012 (F. No. 06/01/2007-Admn.II)—The President is pleased to appoint Shri Anurag Srivastava, IAS (UP : 92), Commissioner, Rural Development, Government of Uttar Pradesh, as Joint Secretary under Central Staffing Scheme in Ministry of Information & Broadcasting in PB-4, Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 10,000/-, with effect from 20.07.2012 (F/N) for a period of five years from the date of assumption of charge of the post i.e. 20.07.2012 (FN) or until further orders, whichever event takes place earlier.

2. On his appointment as Joint Secretary in this Ministry, he is designated as Joint Secretary (Policy & Administration) with immediate effect and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th July 2012

No. A-11019/01/2011-Admn.I—Consequent upon their nomination for appointment on regular basis to the Principal Private Secretary Grade (PPS) of CSSS for Select List Year 2010 by Department of Personnel and Training vide O.M. No. 3/3/2011-CS-II(A) dated 20th March 2012, the President is pleased to appoint the following regular Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretaries) of CSSS cadre, who are officiating as Principal Private Secretary on adhoc basis in this Ministry, to the post of Principal Private Secretary on regular basis for the Select List Year 2010 with immediate effect and until further orders:—

S. No.	Name	Category	Date of Birth	Place of Posting
1	2	3	4	5
	(S/Shri/Ms./Smt.)			
1.	Raj Kumar Thakur	Gen	10.07.1958	CPWD, Chandigarh
2.	Avinash Chander Uppal	Gen	01.11.1953	M/o HUPA
3.	Dharam Vir Singh	Gen	10.07.1955	JS (UD), M/o UD
4.	Dharam Bir Singh	Gen	08.04.1953	DG, CPWD
5.	Asha Nichani	Gen	22.06.1954	DG, CPWD
6.	Lalitha Ramachandran	Gen	16.10.1961	ADG (WR), CPWD, Mumbai
7.	Asha Vishwanathan	Gen	06.12.1953	M/o HUPA
8.	Shama Aneja	Gen	11.12.1959	DG, CPWD
9.	Rajinder Singh	Gen	23.09.1953	O/o Arbitrator, Delhi
10.	Kamini Bansal	Gen	26.02.1961	DG, CPWD
11.	Surender Singh	Gen	12.07.1952	DG, CPWD.

1	2	3	4	5
12.	T. T. Jacob	Gen	10.05.1959	DG, CPWD
13.	Asha Sharma	Gen	30.05.1962	DG, CPWD
14.	Vijay Kumar	Gen	03.03.1953	DG, CPWD
15.	Joyce A. D. Souza	Gen	04.06.1955	CE (WZ-I), CPWD, Mumbai
16.	Rakesh Kumar	Gen	04.11.1962	Sectt. {JS (UT)}
17.	Rajini Ahuja	Gen	22.08.1964	DG, CPWD
18.	Kalpana Ramesh	Gen	03.02.1966	Economic Advisor M/o UD
19.	Rajesh Kumar Srivasatava	Gen	15.07.1959	CE (NZ-II), CPWD, Lucknow
20.	V. V. Radha Krishanan	Gen	15.01.1967	CE (E), SR, Chennai
21.	Alamelu Sreeram	Gen	31.01.1959	DG, CPWD
22.	Sathish N.	Gen	05.06.1967	AS (UD), M/o UD
23.	S. Jayaraman	Gen	26.01.1959	ADG (SR), CPWD, Chennai
24.	A. K. Passi	SC	05.04.1963	DG, CPWD
25.	Poonam Pal	Gen	23.08.1964	DG, CPWD
26.	Ravimathi	Gen	05.10.1954	DG, CPWD
27.	Suresh Sharma	Gen	01.01.1961	DG, CPWD
28.	Sunita Sharma	Gen	05.08.1962	M/o HUPA
29.	Ram Deen	Gen	10.07.1961	DG, CPWD

JITENDER KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 24th July 2012

No. A-12025 (ii)/2010-TCPO/Admn.-III (PP&C)/UD-II—In pursuance of this Ministry's Office Memorandum No. A. 12025 (I)/2010-TCPO/Admn.-III (PP&C)/UD-II dated 06.07.2012, Ms. Jasmine Bimra has assumed the charge of the post of Assistant Town and Country Planner (GCS Group 'A' Gazetted) in the PB-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in Town & Country Planning Organisation with effect from the forenoon of 20.07.2012.

K. G. MOHANTA, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012